



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन 1940 (श0)  
(सं0 पटना 317) पटना, शुक्रवार, 1 मार्च 2019

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना  
27 फरवरी 2019

सं० पर्या/वन-17/2013/245(ई०)—प०व० माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा O.A No.-606/2018 में दिनांक 16.01.2019 को पारित आदेश के द्वारा राज्य में Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 सहित अन्य पर्यावरणीय नियमों के बेहतर अनुपालन का अनुश्रवण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति के गठन का निदेश दिया गया है। तदालोक में समिति की प्रथम बैठक दिनांक 12.02.2019 को सम्पन्न हुई जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग को भी राज्य स्तरीय समिति में सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A No.-606/2018 में दिनांक 16.01.2019 को पारित आदेश एवं राज्य स्तरीय समिति की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 एवं अन्य पर्यावरणीय नियमों के बेहतर अनुपालन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1.	श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3.	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना	सदस्य
5.	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना	सदस्य
6.	प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना	सदस्य

7.	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना	सदस्य सचिव
----	---------------------------------------------------------	---------------

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
त्रिपुरारि शरण,  
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 317-571+500डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>